

हाई स्कूल परीक्षा 2015  
विज्ञान-केवल प्रश्न-पत्र

समय : 3 घण्टे 15 मिनट]

824 (FW)

[पूर्णांक : 70]

**निर्देश**—यह प्रश्न-पत्र तीन खण्डों 'क', 'ख' एवं 'ग' में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है जिसमें चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए।

खण्ड-क (भौतिक विज्ञान)

1. (क) यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिम्ब सीधा बने, किन्तु दूर रखने पर प्रतिबिम्ब उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा— 1
 

(i) समतल दर्पण	(ii) अवतल दर्पण
(iii) उत्तल दर्पण	(iv) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
- (ख) — 10 D क्षमता वाले लेन्स की फोकस दूरी होगी— 1
 

(i) 10 सेमी	(ii) 10 मीटर
(iii) — 10 सेमी	(iv) — 10 मीटर।
- (ग) किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है— 1
 

(i) मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा	(ii) प्रोटॉनों द्वारा
(iii) आयनों द्वारा	(iv) न्यूट्रॉनों द्वारा।
- (घ) एक विद्युत हीटर का सामर्थ्य  $0.5$  किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया। उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा— 1
 

(i) $2.5 \times 10^{-2}$ जूल	(ii) 10.0 जूल
(iii) 4.0 जूल	(iv) $6.0 \times 10^5$ जूल।

2. (क) एक व्यक्ति के चर्छमें में उत्तल लेन्स लगा है। बताइए उस व्यक्ति की आँख में कौन-सा दोष है? इस दोष का कारण बताइए। 2

(ख) किसी वस्तु की लम्बाई तथा लेन्स द्वारा बने उसके प्रतिबिम्ब की लम्बाई में 1 : 4 का अनुपात है। इस स्थिति में लेन्स से वस्तु की दूरी ( $u$ ) तथा प्रतिबिम्ब की दूरी ( $v$ ) में नया अनुपात होगा? 2

(ग) विद्युत प्रतिरोध क्या है? इसका मात्रक लिखिए। 2

3. (क) श्रेणीक्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? प्रतिरोधों के इस समायोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। 2 + 2 = 4

**अथवा** एक बिन्दु  $A$  से  $B$  की ओर  $10^8$  इलेक्ट्रॉन  $10^{-4}$  सेकण्ड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा तथा किस दिशा में प्रवाहित होगी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश  $= 1.6 \times 10^{-19}$  कूलॉम्ब।

(ख) वायु के सापेक्ष जल तथा काँच के अपर्वतनांक क्रमशः  $4/3$  एवं  $3/2$  हैं। जल के सापेक्ष काँच का अपर्वतनांक ज्ञात कीजिए। यदि वायु में प्रकाश का वेग  $3 \times 10^8$  मीटर/सेकण्ड है, तो काँच में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। 2 + 2 = 4

**अथवा** खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेन्सों में दो मुख्य अन्तर लिखिए। किरण आरेख खींचकर खगोलीय दूरदर्शी का सिद्धान्त स्पष्ट कीजिए। 2 + 2 = 4

4. एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैम्प प्रतिदिन 6 घन्टे जलते हैं। 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी 10 घन्टे प्रतिदिन कार्य करता है।  $3 \times 2.50$  प्रति यूनिट की दर से एक माह में विद्युत खर्च क्या होगा? 7

**अथवा** पल्मेंग के बाएँ हाथ का नियम लिखिए। एक  $0.2$  मीटर लम्बे तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार को  $0.5$  न्यूटन प्रति एम्पियर-मीटर के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा से  $45^\circ$  के कोण पर, रखा जाता है। तार पर कितना बल कार्य करेगा? 7

खण्ड-ख (रसायन विज्ञान)

5. (क) क्षारीय विलयन में फैनॉलपथेलिन सूचक का रंग होता है— 1
 

(i) लाल	(ii) पीला	(iii) नीला	(iv) रंगहीन।
---------	-----------	------------	--------------
- (ख) अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है— 1
 

(i) सान्द्र $H_2SO_4$	(ii) $CaCl_2$
(iii) $P_4O_{10}$	(iv) $CaO$ .

(ग) ऐसीटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है— 1

(i) 1 (ii) 2 (iii) 3 (iv) 4.

6. (क) नौसादर की  $NaOH$  व  $Ca(OH)_2$  विलयनों के साथ अभिक्रियाओं के गसायनिक समीकरण लिखिए। 2

(ख) मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्थ उपयुक्त चित्र देकर स्पष्ट कीजिए। 2

(ग) निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए :

(i) पेन्टेनोन-3 (ii) 2-प्रोपेनॉल

7. फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त करने की विद्युत-अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 2 + 2 = 4

**अथवा** सल्फर डाइऑक्साइड की किसी एक अपचायक अभिक्रिया को रसायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड व क्लोरीन गैस के विरंजक गुणों की तुलना कीजिए। 1 + 3 = 4

8. किणवन क्या है? शर्करा युक्त पदार्थों के किणवन द्वारा एथिल ऐल्कोहॉल के निर्माण की विधि लिखिए। इसके किन्हीं दो रसायनिक गुण तथा दो उपयोग भी लिखिए। 1 + 2 + 2 + 2 = 7

**अथवा** मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रसायनिक समीकरण सहित सचित्र वर्णन कीजिए। मेथेन की निम्नलिखित से अभिक्रियाओं के रसायनिक समीकरण लिखिए— 7

(i) नाइट्रिक अम्ल (ii) सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन, (iii) ओजोन (iv) ऑक्सीजन के साथ दहन।

खण्ड-ग (जीव विज्ञान)

9. (क) फुफ्फुस (पल्मोनरी) शिरा खुलती है— 1
 

(i) दाएँ आलिन्द में	(ii) बाएँ आलिन्द में
(iii) दाएँ निलय में	(iv) बाएँ निलय में।

(ख) "जातियों की उत्पत्ति" (Origin of Species) पुस्तक किसने लिखी है— 1

(i) डार्विन ने (ii) मेन्डल ने (iii) लैमार्क ने (iv) लिनीयस ने।

(ग) मनुष्य के मस्तिष्क का वह भाग जो सर्वाधिक विकसित होता है— 1

(i) सेरीब्रम (ii) सेरीबेलम (iii) हाइपोथैलेमस (iv) मेडुला ओब्लांगेटा।

(घ) निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है— 1

(i) पुम्पंग से (ii) वर्तिकाय से (iii) वर्तिका से (iv) अंडाशय से।

10. (क) शुद्ध लम्बे (TT) एवं शुद्ध बौने (tt) पौधों के मध्य एकसंकर संकरण से प्रथम पोड़ी ( $F_1$ ) के वंशज किस प्रकार के प्राप्त होंगे? 2

(ख) उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तनवाद के जनक का नाम लिखिए। 1 + 1 = 2

(ग) रन्ध का नामांकित चित्र बनाइए तथा द्वारा (गार्ड) कोशिकाओं का वर्णन कीजिए। 1 + 1 = 2

11. (क) रुधिर एवं लसिका में चार अन्तर लिखिए। 1 + 1 + 1 + 1 = 4

**अथवा** धमनी एवं शिरा में चार अन्तर लिखिए। 1 + 1 + 1 + 1 = 4

(ख) नामांकित चित्र द्वारा मूल दाढ़ के प्रदर्शन का वर्णन कीजिए। 2 + 2 = 4

**अथवा** कायिक जनन किसे कहते हैं? कायिक जनन के तीन लाभ लिखिए। 1 + 1 + 1 + 1 = 4

12. उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जन अंगों के नाम लिखिए। 1 + 2 + 4 = 7

**अथवा** प्रकाश-संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश-संश्लेषण के लिए विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। तथा प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश-संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। 1 + 2 + 4 = 7